

आज दिनांक 22.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य—

### **पीआरवी आफ द डे**

**पीआरवी 1498** द्वारा मार्ग दुर्घटना मे घायल **03** व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल— पीआरवी 1498 को थाना बखिरा क्षेत्रांतर्गत सांथा से इवेन्ट संख्या 05782 से कालर ने मार्ग दुर्घटना में 03 व्यक्तियों 1- सद्दाम पुत्र सराबत अली 2- नावेद पुत्र असफाक निवासी धोबहा जनपद सन्तकबीरनगर व 3- रामअवतार पुत्र बेचू निषाद निवासी सुभाषनगर थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 02 मिनट में पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को एम्बुलेंस से सीएचसी में हदावल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना बखिरा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को अस्पताल पहुँचाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

**पीआरवी स्टाफ** —आ0 कौशल कुमार, आ0 संदीप कुमार, आ0 भूपेन्द्र प्रताप सिंह, हो0चा0 मो0 रफीक ।

### **शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार**

● **थाना बखिरा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।**

**मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 72 वाहनो से 73,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया**  
आज दिनांक 22.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 72 वाहनो से 73,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।